



# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

## CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



24 मार्च 2021

### प्रेस प्रकाशनी

#### शिक्षा मंत्री द्वारा आनंददायक अधिगम के लिए पाठ्यचर्या आधारित कॉमिक पुस्तकों का प्रमोचन तथा शिक्षा के लिए डिजिटल आउटरीच का विस्तार

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार ने छात्रों के समय अधिगम के लिए और नई शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित संदृष्टि में सम्मिलन के प्रयासों के तहत एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों से संरेखित कॉमिक पुस्तकों का प्रमोचन किया है। माननीय शिक्षा मंत्री ने 24 मार्च 2021 को सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों द्वारा बनाई गई और एनसीईआरटी द्वारा व्यवस्थित/प्रबंधित (curated) की गई 100+ कॉमिक पुस्तकों का प्रमोचन किया है। ये नई पहल ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ हमारे बच्चों में सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यपुस्तक अधिगम से निकलकर अवधारणाओं को समझने और वास्तविक जगत/दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के साथ इनके संबंध को समझने के बदलाव की ओर उन्मुख होती है। यह रटकर सीखने की तुलना में रचनात्मक और नव चिंतन को और अधिक प्रोत्साहन देती है। इसलिए, इस संदर्भ में, ग्रेड 3-12 में एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के अध्यायों से संरेखित कॉमिक पुस्तकों को नवीन शैक्षणिक संसाधनों के रूप में विकसित किया गया है। कॉमिक पुस्तकें देश भर के विभिन्न सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों द्वारा 16 विषयों के लिए विकसित की गई हैं।

कॉमिक्स को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के विषयों के साथ संरेखित किया गया है और इसमें विशिष्ट कहानी और चरित्र हैं जिन्हें छात्र और शिक्षक स्वयं से जोड़कर देख सकते हैं। इन कॉमिक्स की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ये वर्कशीट द्वारा समर्थित हैं और छोटे-छोटे विषयों में विभाजित हैं और इसके साथ अधिगम उद्देश्य और परिणाम संयोजित किए गए हैं।
- अवधारणाओं को समझने और अधिगम अंतराल को कम करने के लिए अनुप्रयोग आधारित उदाहरण।
- शैक्षणिक सामग्री की विसंरचना करते समय; अन्य जीवन कौशलों के साथ लिंग संवेदनशीलता, महिला सशक्तीकरण, मूल्य शिक्षा के मुद्दों पर ध्यान दिया गया है।

इन कॉमिक्स को DIKSHA वेब पोर्टल (diksha.gov.in) पर या किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर DIKSHA ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। DIKSHA App पर, डाउनलोड करने और उपयोगकर्ता



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092  
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092





# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

## CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



प्रोफाइल बनाने के बाद, एक शिक्षार्थी ड्रॉपडाउन से CBSE / NCERT बोर्ड का चयन कर सकता है और फिर संगत ग्रेड का चयन करके और विषयवार कॉमिक पुस्तकों का उपयोग कर सकता है। कॉमिक्स को व्हाट्सएप पर DIKSHA के चैटबोट के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। व्हाट्सएप चैटबोट डिजिटल अधिगम के दायरे का विस्तार करने के लिए एक अनूठा अवसर देता है। यह DIKSHA पर डिजिटल लर्निंग और प्रशिक्षण से संबंधित विकल्पों का एक मेनू प्रस्तुत करता है जिसमें सीखने के लिए उपयोगकर्ता को कॉमिक बुक्स और संगत ग्रेड का चयन करना होगा।

चूंकि 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्यों और परिवर्तनकारी दक्षताओं पर केंद्रित है, जो शिक्षार्थियों का समग्र रूप से विकास करती है, कॉमिक पुस्तकें शिक्षा को व्यक्तिगत स्तर पर अधिगम की ओर उन्मुख करती हैं। अधिगम और आयु की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक बच्चे के शिक्षार्थी प्रोफाइल में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। यह आशा की जाती है कि शिक्षक और छात्र इन मूल्यवान संसाधनों का उपयोग आनंदपूर्ण अधिगम अनुभव के लिए करेंगे।

यह कार्य सीबीएसई संबद्ध स्कूलों की कड़ी मेहनत और देश के विभिन्न हिस्सों और विभागों के 1000 से अधिक शिक्षकों के संयुक्त प्रयासों से पूरा हुआ है। व्हाट्सएप इंडिया टीम ने चैटबॉट को सक्षम करने में मदद की है। व्हाट्सएप जैसे डिजिटल सक्षम समाधानों के माध्यम से कॉमिक पुस्तकों को सुलभ बनाकर, डिजिटल लर्निंग पहल से शिक्षा को दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाने में मदद मिल रही है।

टीम सी.बी.एस.ई.



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092  
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

